SOM DATT FINANCE CORPORATION LTD.

CIN:L65921WB1993PLC377542

Date: 26.05.2022

BSE Ltd.

Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street

MUMBAI — 400 001 (Scrip Code: 511571)

Sub.: Newspaper Advertisement-Regulation 47 of the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

Dear Sir

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the Financial Results of the Company for Quarter and Year ended on 31st March, 2022 published in newspapers Financial Express (English Edition all India) and Jansatta(Hindi- Delhi Edition) on May 26, 2022.

You are requested to take the same on record.

Thanking You

Yours Truly

peinar

For Som Datt Finance Corporation Limited

Sandip Kumar Chaubey

Company Secretary and Compliance Office

Encl.: As above

INVITATION FOR E-BIDS (IFB) (E-Tendering Mode Only) Description Details CON/T/Wheel Set-23400/e-65605/2022 S.N. Description Discription Co. ONITYMee Set 24/40/e-65605/2022 NRT 70.08 Christ Spprax. NRT 70.08 Christ Spp Period of Tender Sale (Online) Date and time of Submission of Bio Date and time of opening of Technical Bid 23rd June 2022 at 11.30 hrs —Indian Standard Time Office of Executive Director (P&S (Area-III at Office of Executive Director (P&S (Area-III at Office of Executive Director (P&S) (Area-III NSIC, MCBP Building, 3rdFloor, Okhila Industrial Estate, Osp. NSIC Okhila Metro Station New Delin-110/202 (NDIAR) EXECUTIVE DIRECTOR (P&S)(A-III. Combined Coccution of India Ltd. Area (III. Combined Coccution of India Ltd. Area Address for Communication payment gateway to CONCOR INR 4720.00 or US\$ 62.00 (inclusive of GS @18%) through online payment natures. fender Processing Fee (Non-Refundable) Jer Processing Fee (Non-Refundation) Jer Processing Fee (Non-Refundat

TAI INDUSTRIES LIMITED
CIN: L01222WB1983PL.C059695
Regd. Office: 53-A, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Ph. No: 033-4041 6866. Fax: 033-2249 7319 email: info@taiind
Wahaliba Lawaya fairind own

				23		(7 in Lakhs
SI No.	Particulars	Quarter Ended March, 2022	Quarter Ended December, 2021	Quarter Ended March, 2021	Year Ended March, 2022	Year Ended March, 2021
1	Total Income from Operations	9,008.91	8,016.53	6,735.92	30,186.19	19,623.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	54.93	262.09	169,75	587.26	292.72
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	54.93	262.09	169.75	587.26	304.27
4	Net Profit / (Loss) for the points after tax (after Exceptional **** or Extraordinary items#)	20.02	192.09	181.31	412.35	273.48
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)!	87.36	163.57	168.84	484 74	340.42
6	Paid up Equity Share Capital	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
В	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) – 1, Basic (₹) 2, Diluted (₹)	0.33	3.20 3.20	3.02	6.87 6.87	4.56 4.56

For Tai Industries Lim Rohan Gh



Sumedha Fiscal Services Ltd.

CIN: 1./10/10/Ws19698-LC04/7460
R6A, Getenfalk, 985-feet Office:
B8, Middleton Street, Kosketa - 70/071
B8, Middleton Street, Kosketa -

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companiers (Management and Administration) Rules, 2014 ("the 22 of the Companiers (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") Issued by the Institute of Company

tecaming any statutory medication or re-enumented threef for the tree to the tree of t

u may ZUZZ;
Approval of Re-appointment and Remuneration of Mr. Bhawan Shankar Rathi (DlN: 00028499) as Whole-time Director of the Company for a further period of 3 (three) years with effect from 1s April, 2022.

April, 2022.

The detailed explanatory statement under Section 102 of the Act setting out the material facts concerning the resolution, forms part of the Notice along with the explanatory statement is available on the whether of the Company is www.sumenthefactsi.com, website of framities evoting service provider Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and on the website of BSE Limited-www.bseindia.com
Wembers are hereby informed that:

1. The Company has completed rispatch of Postal Railof Notice through

ids are registered with the Company or with the Deposito	
Cut-off date, i.e. Friday, May 20, 2022.	1 1
S Members of the Company as on the Cut-off date are entitled to e and avail the remote e-voting facility. A person who is not a member 3s thrifted but but the sticking facility is discretion purpose only.	normati

In compliance with the MCA Circulars, the hard copy of Notice, Posta Ballot Form and prepaid business reply envelope have not been sen

in comparison with relative Charlests, the final copy to robuse present in the control of the co

Dhwani Fatehpuria Company Secretary ACS- 23072

financialen.epan.in

DELHIJAL BOARD

OFFICE OF THE ADDL, CHIEF ENGINEER (M)-11
ROOM NO. 110, OLD SHW MANDIR MARG JAL SADAN, LAJPAT NAGAR, NEW DELHI-11
Email: extelibin11/8/gmail.com Ph-011-29810956

NIT No:- 11 / EE (T) M-11/ 2022-23 Name of Work Meney 2022_DJB_222950_I 25,05,2022

NIT along with all the terms & conditions is available on Web Site https://govtprod ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 140 (2022-23 Sd/- (Naresh Kumar Kardam Executive Engineer (T) M-11)22-23) STOP CORONA Executiv "Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd. BOKARO POWER SUPPLY CO.

(A. Joint Venture or 8 BALL & DVC).

(Bapat Bhavan, Bokero Steel Cliffy 2700 Light Park Intervent of 18 BALL & DVC).

(Bapat Bhavan, Bokero Steel Cliffy 2700 Light Park Intervent of 19 Bokero Steel Cliffy 2700 Light Park Intervent of 19 Bokero Steel Cliffy 2700 Light Park Intervent of 19 Bokero Steel Cliffy 2700 Light Park Intervent of 19 Bokero Steel Cliffy 19 B Dated 24/05/2022 BOD & Time 022| sit Website: www.bpscl.com/etenders.gov.in_Bidders are requested to

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Registered Address: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 1100 CIN: L63921DL1993PLC377542 SENT OF AUDITED FINANCIALS RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED M. (All amounts are in INR lacs, ex

Sr.		C	Quarter ended			Year ended		
No.	Particulars	31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21		
15151	ratuculata	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited		
	Revenue from operations							
	Dividend income Net gain on fair value changes	12.66 (70.83)	33.13 34.52	13.94 235.35	59.10 480.15	20.69 516.33		
-1	Total revenue from operations	(58.17)	67.65	249.29	539.25	537.02		
н	Other income	0.01			0.01			
111	Total income (I+II)	(58.16)	67.65	249.29	539.26	537.02		
	Expenses (i) Finance costs	-	0.12		0.99			
	(ii) Fees and commision expense	1.16	1.15	1.15	8.21	5.36		
	(iii) Employee benefits expense	10.95	10.01	5.43	33.18	17.41		
	(iv) Depreciation and amortization expense (v) Other expenses	0.22 6.29	0.21 8.33	10.06	0.51 25.65	0.19 30.33		
IV	Total expenses	18.62	19.82	16.66	68.54	53.29		
V	Profit before exceptional items and tax (III-IV)	(76,78)	47.83	232.63	470.72	483.73		
VI	Exceptional items	(70.70)	47.00	202.00	470.72	400.70		
VII	Profit before tax (V-VI)	(76.78)	47.83	232.63	470,72	483.73		
	Tax expenses	100000000000000000000000000000000000000	27.000.00	VIII	100000000	200.000.000		
	(i) Current tax (ii) Adjustment of tax relating to earlier years	(12.78)	8.01	41.50	78.69	80.85		
	(iii) Deferred tax	7.57	2.60	(44.00)	10.21	(39.94)		
VIII	Total tax expenses	(7.59)	10.61	(4.20)	86.69	40.96		
IX	Profit for the period (VII-VIII) Other comprehensive income (i) Items that will not be reclassified to profit or loss in subsquent years:	(69.19)	37.22	236.83	384.03	442.77		
	Remeasurement of post employment benefit obligations (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to	(0.05)	-	0.10	(0.05)	0.10		
	profit or loss	0.01	181	(0.02)	0.01	(0.02)		
х	Total other comprehensive income	(0.04)		0.08	(0.04)	0.08		
XI	Total comprehensive income for the year (IX+X) Basic / Diluted Earnings Per Share (FV of INR 10/- each)	(69.23)	37.22	236.91	383.99	442.85		
	(i) Basic	(0.69)	0.37	2.37	3.84	4.42		
	(ii) Diluted	(0.69)	0.37	2.37	3.84	4.42		

The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (India A) notified uncompany for the Companies (Indian Accounting Standards (Indian A) notified uncompanies (Indian A) indiand (Indian A). The Companies (Indian A) indiand (Ind ove results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 25

med tax expenses for the year ended March 31, 2022 includes INR 46.74 lakhs (March 31, 2021; INR 1.80 lakhs) for MA

credit entitlement.

During the financial year 2020-21, the registered office of the Company was shifted from West Bangal to NCT of Delhi after approximation complexit authority.

Terror complexit authority are provided in the provided of the company was shifted from West Bangal to NCT of Delhi after approximation to the provided of the provided of

For and on behalf of board of director Som Datt Finance Corporation Limit

orporation Limited Sd/ Vijay Rathee Managing Director DIN: 00042731

Place : Gurugram Date : May 25, 2022

Vardhman VARDHMAN HOLDINGS LIMITED

Regd. Office: Chandigarh Road, Ludhiana-141010

Corporate Identity Number (CIN): L17111PB1962PLC002463, PAN: AABCV8088P Website:www.vardhman.com Email: secretarial.lud@vardhman.com

Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2022

(Ra. In Crost Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Year Ended Year Ended

No.		March 31, 2022 Unaudited (Refer note 2)	Dec. 31, 2021 Unaudited	March 31, 2021 Unaudited (Refer note 2)	March 31, 2022 Audited	March 31, 2021 Audited
1	Total Income from Operations	6.92	10.39	8.52	34.94	21.03
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Share of Profit/(Loss) of Associates and Exceptional items)	6.05	9.04	7.24	31.87	18.75
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax, Share of Profit/(Loss) of Associates (after Exceptional items)	6.05	9.04	7.24	31.87	18.75
4	Net Profit/(Loss) for the period after	93.74	108.74	75.03	429.09	129.51
	tax, Share of Profit/(Loss) of		Table 1			

otal C re) for the period 6 Paid up Equity Share Capital
7 Reserves (excluding Revaluate 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 2,773.64 Reserve & Non controlling interest) Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (in Rs.) (not annualized):

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filed with the Stock
Exchanges under Regulation; 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The full format of the quarterly and yearly financial results are available on the Stock Exchanges websites i.e.
www.bseindis.com and www.neisoflaci.com and also novelbale of the Company is. www.vefirman.com.

2. The figures for the quarter ended March 31 are the balancing figures between audited figures in respect of the full

340.67

340.67

235.08

235.08

1,344.46

1.344.46

405.80

405.80

293.74

293.74

financial year and the published year to date figures upto 31st December.

3. The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 5/- per share on fully paid up equity shares of the

(a) Basic

(b) Diluted

Place : Ludhiana Dated : May 25, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended March 31, 2022	Quarter Ended Dec. 31, 2021	Quarter Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2021	
		(Refer note 2)	Unaudited	Unaudited (Refer note 2)	Audited	Audited	
1	rotal income from operations	0.92	04.44	0.02	110.83	21.03	
2	Profit before tax	6.05	63.09	7.24	113.75	18.75	
3	Net Profit after tax	3./1	44.//	6.05 " ^"	83.38 [^^^	15.05 ***	
otai	Comprehensive Income	(7.95)	50.90	16.98 1	26.92	65.65	

6.98 126.92 | For Vardhman Holdings Limite Sd (S.P. Oswal) Chairman & Managing Direct

A

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LTD.

CIN: L15520MP1989PLC049380

Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indoor - 452008 (M.P.)

F-mail: investorrelations/Gash in: Website: www.associatedalcohols.com. Ph. 0731-4780400









Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	15332.72	12964.18	52838.45
2	Net profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1994.94	2087.38	8,116.24
3	Net profit / (loss) for the period Before Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1994.94	2087.38	8,116.24
4	Net profit / (loss) for the period After Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1515.42	1508.08	6080.56
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	1713.99	1553.00	6281.99
6	Equity Share Capital	1807.92	1807.92	1807.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year			29476.21
8	Earning Per Share (before extraordinary item) (of ₹10/- each) Basic: Diluted:	8.38 8.38	8.34 8.34	33.63 33.63

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full formats of the Audited Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges www.nseindla.com and www.besindla.com and on the Company's website is: www.assolida.com and www.besindla.com and on the Company's website is: www.assolida.com and www.besindla.com and one of the Stock Exchanges wew.assolida.com and www.besindla.com and one of the Company's website is: www.assolidatedischobs.com and proproved by the Board of Directors at their meetings that Occasion May 2022.

For: Associated Alcoholos & Breweries Ltd.

For: Associated Alcohols & Breweries Ltd.
Sd/Tushar Bhandari, Whole Time Director
DIN: 03583114

XPRO INDIA LIMITED

Place : Indore Date : 25.05.2022

CIN: L25209WB1997PLC085972
Registered Office: Barjora - Mejia Road, P.O. Ghutgoria, Tehsil: Barjora, Distt.: Bankura.
West Bengal 722 202, Tel.:+91-9775301701; e-mail: coseo@xproindia.com, Website: w

Extract of Statement of Consolidated Audited Financial Results

xproindia

			Quarter ended		Year ended		
SI.	Particulars	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total income from operations	14280.25	11124.95	14749.53	47171.99	35483.93	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1311.15	1161.69	1233.53	4058.78	40.67	
Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)		1311.15	1161.69	1233.53	4058.78	40.67	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1745.55	1161.69	964.46	4493,18	39.83	
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1746.69	1151.80	940,15	4464.65	19.51	
6	Equity share capital	1181.35	1181.35	1181.35	1181.35	1181.35	
7	Other equity				16021.29	7011.79	
8	Earnings per share (of Rs.10 each) (Not annualised) (Rs) (a) Basic (b)Oiluted	14.77	9.83 9.83	8.16 8.16	38.03 37.57	7.07 7.07	

1. K	ley information on Standalone Financia	al Results:				(Rs. in lac	
			Quarter ended		Year ended		
SI.	Particulars	Particulars March 31, 2022	December 31, 2021 Unaudited	March 31, 2021	March 31, 2022 Audited	March 31, 2021 Audited	
		Audited		Audited			
1.	Total income from operations	14280.25	11124.95	14749.53	47171.99	37335.36	
2	Profit before tax	1310.93	1161.67	1238.46	4058.67	1303.65	
3	Profit after tax	1745.33	1161.67	969.39	4493.07	791,00	

3 Profit after tax x 1745.33 | 1161.67 | 969.39 | 4493.07 | 1761.07 | 1765.23 | 1161.67 | 969.39 | 4493.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07 | 1761.07

For and on behalf of the Box

Torrent

IN: L24230GJ1972PLC002126

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31-Mar-2022

₹ in crores ex

Year Ended 31-Mar-2022 Quarter Ended 31-Mar-2021 Audited (Refer Note 2) Quarter Ended 31-Mar-2022 Audited (Refer Note 2) Audited Total Income from operations (net)
Net Profit / (Loss) for the period
before tax and exceptional items
Net Profit / (Loss) for the period
before tax and after exceptional items
Net Profit / (Loss) for the period
after tax and exceptional items 8508 1937 398 1711 383 (87) 383 (118) 777 324

ш	after tax and exceptional items		(110)		7.10	524
	ar Titlaria etelliste Viella varia.				917	1 1
E	iquity Share Capital	84.62		84.62	84.62	2 Th
	Other Equity excluding Revaluation teserve*			.5868		VC N
П	Earnings per share (of ₹ 5/- each	0)				
Ш	Basic		(6.98)	4	5.93	19.16

* Other Equity excluding Revaluation Reserve as on 31-Mar-2021 was ₹ 5753 crores

Notes:

1 Summary details of stand-alone audited financial results of Torrent Pharmaceuticals Limited:

			in crores
Particulars	Quarter Ended 31-Mar-2022	Year Ended 31-Mar-2022	Quarter Ended 31-Mar-2021
Net income from operations	1662	6742	1468
Profit before tax	345	1466	301
Profit after tax	221	991	279
T. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	210	0.00	2000

219 392 302

The figures for the quarter ended 31-Mar-2022 and 31-Mar-2021 is the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and for the period upto the end of the third quarter of relevant financial year, which were subject to limited review.

The Board of Directors in their meeting held on 25-May-2022, recommended a final equity dividend of 88- per equity share.

The Company is completing 50 years of its incorporation this year. To commemorate the same, the Board has additionally recommended:

to our mass additionally economic terms of $\mathbb{Z}[5/4]$. A special dividend of $\mathbb{Z}[5/4]$ per equity share. Considering this, the total dividend for year become $\mathbb{Z}[48/4]$ per equity share (includes interim dividend of $\mathbb{Z}[5/4]$ per equity share).

2. Bonus share issue in the ratio of 1:1 i.e. one equity bonus share for each one original operation appropriate of the contraction of the bonus issue, the total opidan share contract. It is \$\frac{1}{2}\$ for 22 crores for the existing \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2

4 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended
1-wash-20-2c niled With Stock Exchafiges under regundition 5.9 for the 5-fcst (Likhtig tonigations
2015. The full format of the same, along with
the notes, are available on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the
Company's wobstic www.torenipharma.com.

Place : Ahmedabad, Gujarat Date : 25-May-2022

New De**l**hi









Medicamen Biotech Ltd.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi-110019 CIN: L74899DL1993PLC056594 E-mail: cs@medicamen.com, www.medicamen.com

Extracts of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31 03 2022

	Particulars	2	Stand	dalone		Conso	idated
SI.		Quarter Ended		Year Ended		Year Ended	
No.		Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2021	Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2021	Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2021
1	Total income from operations (net)	2309,14	2087.46	11716.53	11090.06	11716.53	11347.01
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	322.84	464.35	1810.35	1675.12	1809.42	1639.40
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	322.84	464.35	1810.35	1675.12	1809.42	1639.40
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	275.47	414.34	1490.64	1248.66	1489.71	1212.94
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	275.47	414.34	1490.64	1248.66	1489.71	1212.94
6	Equity Share Capital	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation) Basic: Diluted:	2.25 2.25	3.39 3.39	12.20 12.20	10.22 10.22	12.19 12.19	9.93 9.93

The above Audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on 25th May 2022. The above results have been audited by the statutory auditors of the Company. The reports of the statutory auditors are unqualified.

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind. AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 5, 2016 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

The figures for the guarters ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited

- figures in respect to full financial year and the published unaudited year to date figures upto the period end of the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review. The board of Directors has recommended a dividend @ 10% i.e Rs. 1 per share (Face value INR 10 per share)
- subject to approval of members in ensuing Annual General Meeting. The company operates only in one business segment, viz. Pharmaceuticals formulations, hence segment reporting
- is not applicable The Earning Per Share has been calculated as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 - "Earning per Share"
- Audit report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.
- The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable.

For Medicamen Biotech Limited

Place: New Delhi Rahul Bishnoi Date: 25.05.2022 Chairman

> कार्यालयः अति. मुख्य अभियंता (एम) -11 कमरा सं. 110. पराना शिव मंदिर मार्ग, जल सदन,

	Delta de Sanal	लाजपत नगर, नः ईमेलः eedjbm11@gmail	ई दिल्ली-1100	024	एक मान्य सम्बाध की और
		एन.आई.टी. सं.: 1			- 20 ATT
क्रम सं.		कार्य का विवरण	(रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि⁄समय
1.	राजस्व निर्माण के लिये दि.ज.बो. की विभिन्न भूमि के पुनर्विकास के लिये व्यापक आर्कीटैक्चरल परामर्श सेवाओं का प्रावधान।		1,10,00000/-	2022_DJB_222950_1 25.5.2022	14.6.2022 के 3.00 बजे अप. तक।

बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 140 (2022-23)

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें''

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली कार्यालयः अति. मुख्य अभियंता एम-3, उप अधीक्षण अभियंता (टी) एम-3 एच-ब्लॉक, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-89

प्रैस एनआईटी सं. 18(2022-23)

ईमेल आईडी: eetenderingm3.djb@gmail.com



कार्यपालक अभियंता (टी) एम-11

(नरेश कमार करदम)

प्रैस निविदा सूचना कार्य का विवरण राशि/अनुमानित निविदा शुल्क माध्यम से निविदा जारी माध्यम से निविदा प्राप्ति

			₹, 73100/-	24.05.2022	08.06.2022 প 3.00 অস					
	ाई (एम) - 3 क अंतर्गत एसो-06 रिटाला में संक. 16 के ए-1 पांकट में	٧٠.	V. 73 1407-		08.06.2022 97 3.00 99					
र	🕯 , जंग लगे 100 एमएम डाया वाटर लाइन का विस्थापन।	3651513/-	रु. 50∮/-	2022_DJB_222937_1	अप. तक					
	U.S. S.									
ਫ਼	र्म में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.del	hi.gov.in पर	देखी जा सकती ह	हैं ।	हस्ता/-					
ı		Ŭ								
ı	भो. (जल) द्वारा जारी				बी.एल. कुरु					
ŀ	i. जे.एस.वी. 138(2022-23)									
ı	1. 41.41. 150(2022 25)	•		34 010	नावान जानवता (ठा) एन उ					

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED Registered Address: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 110058

CIN: L65921DL1993PLC377542 STATEMENT OF AUDITED FINANCIALS RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (All amounts are in INR lacs, except otherwise stated)

Sr.		Quarter ended			Year ended		
No.	Particulars	31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21	
33	raidoulars	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
	Revenue from operations	5/04/2/5	AC1075301	7000000000	HOLOMOUS	127079455.1	
	(i) Dividend income	12.66	33,13	13.94	59.10	20.69	
	(ii) Net gain on fair value changes	(70.83)	34.52	235.35	480.15	516.33	
Į.	Total revenue from operations	(58.17)	67.65	249.29	539.25	537.02	
H	Other income	0.01			0.01	12	
III	Total income (I+II)	(58.16)	67.65	249.29	539.26	537.02	
	Expenses (i) Finance costs	100	0.12	81	0.99	8	
	(ii) Fees and commision expense	1.16	1.15	1.15	8.21	5.36	
	(iii) Employee benefits expense	10.95	10.01	5.43	33.18	17.41	
	(iv) Depreciation and amortization expense	0.22	0.21	0.02	0.51	0.19	
	(v) Other expenses	6.29	8.33	10.06	25,65	30.33	
IV	Total expenses	18.62	19.82	16.66	68.54	53.29	
v	Profit before exceptional items and tax (III-IV)	(76.78)	47.83	232.63	470.72	483.73	
AII AI	Exceptional items Profit before tax (V-VI)	(76.78)	47.83	232.63	470.72	483.73	
	Tax expenses (i) Currenttax	(12.78)	8.01	41.50	78.69	80.85	
	(ii) Adjustment of tax relating to earlier years	(2.38)	0.01	(1.70)	(2.21)	0.05	
	(iii) Deferred tax	7.57	2.60	(44.00)	10.21	(39.94)	
VIII	Total tax expenses	(7.59)	10.61	(4.20)	86.69	40.96	
IX	Profit for the period (VII-VIII) Other comprehensive income (i) Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years:	(69.19)	37.22	236.83	384.03	442.77	
	Remeasurement of post employment benefit obligations (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to	(0.05)	823	0.10	(0.05)	0.10	
	profit or loss	0.01	100	(0.02)	0.01	(0.02)	
X	Total other comprehensive income	(0.04)		0.08	(0.04)	0.08	
ΧI	Total comprehensive income for the year (IX+X) Basic / Diluted Earnings Per Share (FV of INR 10/- each)	(69.23)	37.22	236.91	383.99	442.85	
	(i) Basic	(0.69)	0.37	2.37	3.84	4.42	
- 0	(ii) Diluted	(0.69)	0.37	2.37	3.84	4.42	

See accompanying notes to financial results

 The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 25 The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment)

- 3. As per Indian Accounting Standards (IndAs) 108 "Operating Segment", the company's business falls within a single business
- 4. The deferred tax expenses for the year ended March 31, 2022 includes INR 46.74 lakhs (March 31, 2021: INR 1.80 lakhs) for MAT
- 5. During the financial year 2020-21, the registered office of the Company was shifted from West Bengal to NCT of Delhi after approve
- 6. Figures for the previous quarters / periods have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to correspond with the current period's classifications / disclosures.

Som Datt Finance Corporation Limited

For and on behalf of board of directors of

Place : Gurugram Date : May 25, 2022

Vijay Rathee Managing Director DIN: 00042731



फर्म पंजीकरण

केंद्रीय विद्यालय से.-4 आर के पुरम में संत्र 2022-23 के लिए विभिन्न मंदों में खरीद एवं सेवाओं हेत् फर्मों के पंजीकरण आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छक फर्म दिनांक 15.06.2022 दोपहर 2 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाईट https://rkpuramsec4.kvs.ac.in पर या कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

	मिट्यू सरकार का	енр Canara Ban (A Government of India Undertaking)	* ◆	अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस		
क्र. सं.	शाखा	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	स्पीड /रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस मेजने की तारीखः 21.05.2022		
	ग्रीनपार्क बरेली शाखा	 84. सौदाग्रान दरगाह आला हजरती के पास, बरेली 2. मोहम्मद इकबाल केयर ऑफ श्री कल्लू 	आवासीय मकान स्थित खसरा नंबर 13 का भाग, बेनीपुर चौधरी, बरेली, क्षेत्रफल 86.61 वर्गमीटर, संपत्ति श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री साबिर अली के नाम। सीमायें:— उत्तरः अराजी जाने आलम, दक्षिणः अराजी जाने आलम, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः अराजी अफसर अली	नोटिस के अनुसार देय राशि		

(एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में ढाक विमाग / कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया / लेने से इन्कार किया। आपको सचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप में अघोहस्ताहार से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आरितयों का प्रतिभृतिकरण तथा पुर्नानिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा। प्राधिकत अधिकारी स्थान : बरेली दिनांक 25.05.2022

TECHNOFAB ENGINEERING

Regd. Office: 913, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi - 110 019, CIN: L74210DL1971PLC005712 Tel: +91-11-2641-1931 / 2641-5961

_		STANDALONE (Rs.in Lacs except shares and EPS)				CONSOLIDATED (Rs.in Lacs except shares and EPS)			
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	4,260.83	11,294.32	1,032.19	2,662.90	4,260.83	11,294.32	1,032.19	2,662.90
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax and Exceptional items)	(2,597.30)	(4,767.05)	(435.58)	(8,428.92)	(2,594.55)	(4,767.44)	(392.92)	(8,403.83)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax)	(2,597.30)	(7,998.91)	(1,090.04)	(12,800.32)	(2,594.55)	(7,999.30)	(1,047.38)	(12,775.23)
4.	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,597.93)	(7,999.54)	(1,084.55)	(12,800.32)	(2,595.18)	(8,000.71)	(1,052.34)	(12,785.21)
5.	Net Profit / (Loss) for the period	(2,597.93)	(7,999.54)	(1,084.55)	(12,800.32)	(2,595.18)	(8,000.71)	(1,052.34)	(12,785.21)
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)]	(2,577.61)	(7,978.34)	(1,071.38)	(12,794.44)	(2,574.87)	(7,979.52)	(1,039.17)	(12,779.33)
7.	Paid-up equity share capital (10,490,000 Equity Shares of Rs. 10/- each.)	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00
8.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet		(21,254.13)	Ĭ.	(13,275.79)		(19,986.83)		(12,007.31)
9.	Earnings Per Share (EPS) (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic; Diluted:	(24.77) (24.77)	(76.27) (76.27)	(10.34) (10.34)	(122.02) (122.02)	(24.74) (24.74)	(76.27) (76.27)	(10.03) (10.03)	(121.88) (121.88)

NOTE:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the Stock Exchanges websites i.e. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and also available on the Company's Website www.technofabengineering.com. Date: 24/05/2021

For and on behalf of the Board of Directors of Technofab Engineering Limited Sd/- Arjun Gupta (Chairman & Managing Director) DIN-00012092

Place: Faridabad

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-।. रिटेल

प्रथम तल. 23, गजफगढ़ रोड़, गई दिल्ली-110015, फोग: 25419177, 25412977 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभृत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत — दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से — प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसुली हेत् नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	The state of the s	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रमारित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का भौतिक/सांकेतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	रोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वेची जा रही है		ई-नीलामी की तिथि प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समयः
1	कशमीर सिंह	डीडीए फ्लैट नं. 739, 4वां तल, पॉकेट जी एच -1, सैक्टर-28, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 44 वर्ग मी., यह सम्पत्ति सुश्री मोनिका सिंह पुत्री श्री कशमीर सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा)	₹ 24.30 लाख	रु. 32.61 लाख दिनांक 28.04.2012 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि	श्री सौरम कु. श्रीवास्तव मो. नं. 8283955009 & श्री डी.एस बिष्ट मो. नं. 9971846693	28-06-2022 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक	15-06-2022 पूर्वाह 11.00 वजे से अपीह 03.00 बजे तक
			₹ 2.43 लाख				
			₹ 1.00 लाख				
2	भावना पहेली छेत्री(सह—उधारकर्ता) पीर	1 0 1 0 0 0 0 0 0		दिनांक 28.04.2012 तक प्लस भविष्य का ब्याज,	श्री सौरभ कु. श्रीवास्तव मो. नं. 8283955009 & श्री डी.एस बिष्ट मो. नं. 9971846693	दोपहर 12.00 बजे से	15-06-2022 पूर्वीक 11.00 बजे से अपींड 03.00 बजे तक
			₹ 3.18 लाख				
			₹ 1.00 लाख				

ई-नीलामी हेत् नियम व शर्ते:--

1. ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्ते आदि निविदा दस्तावेज ibapi के ई—नीलामी प्लेटफार्म https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध है

2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(याँ) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(याँ) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(याँ) को प्रभावित करने वाले दावाँ / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनबद्धता

सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभृत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से

3. इच्छुक बोलीदाता ई—नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री—बिंड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई—नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाँता को प्री—बिंड ईएमडी का क्रेडिट दियाँ जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

4. यह ई—नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी।

5. ई--नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों https://ibapi.in पर प्रकाशित की गई है।

दिनांक 25-05-2022, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता०/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक



नेशनल फर्टिलाइजुई स्मिमेनेन

_____ र ... ्र ... ्र ... ्र ... ा. इंटा@nfl.co.in दूरमाषः 011—24360066, 24361252

डाक मतदान और सुदूर ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 नियम 20 और 22 (उस समय लागू होने वाले किसी वैधानिक संशोधन अथवा पुनर्अधिनियमन सहित), और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संर 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22 / 2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33 / 20 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक जून 23, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/20 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 (इसके बाद सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिय 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) के विनियम 44, लागू सीमा तक, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-2) सहित अन्य लागू प्रावधा यदि कोई हों, के अनुसरण और उसके अनुपालन में तथा अन्य लागू विधियों एवं विनियमों के अनुसरण में निदेशकों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कार्य के संबंध में सदस्यों द्वारा ड मतदान सूचना में निर्दिष्ट साधारण / विशेष संकल्प (संकल्पों) को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (सुदूर ई—वोटिंग प्रणाली) से डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है:

- 1. श्री अतुल बाबूराव पाटिल (डीआईएन: 09557730) को कंपनी के निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त करना (साधारण संकल्प)
- सुश्री नीरजा आदिदम (डीआईएन: 09351163) को कंपनी के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना (साधारण संकल्प)
- डॉ. पूनम शर्मा (डीआईएन: 09392920) को कंपनी के बोर्ड में गैर-शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना (विशेष संकल्प)
- श्री काशी राम गोदारा (डीआईएन: 09393859) को कंपनी के बोर्ड में गैर–शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना (विशेष संकल्प)
- श्री रीतेश तिवारी (डीआईएन: 07082681) को कंपनी के बोर्ड में गैर—शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना (विशेष संकल्प)
- डॉ. वेंकट सर्वरायुड् थोटा (डीआईएन: 01631664) को कंपनी के बोर्ड में गैर-शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना (विशेष संकल्प)
- श्री ज्योति भ्रमर तुबिद (डीआईएन: 02442295) को कंपनी के बोर्ड में गैर–शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना (विशेष संकल्प)

माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण सहित उन सदस्यों को सूचना भेजी गई है। कंपनी ने बुधवार 25 मई, 2022 को डाक मतदान सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पूरा कर लिया है। डाक मतद की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nationalfertilizers.com स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की वेबसाइट अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएस www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट पर (एनएसडीए www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

पूर्वकथित परिपत्रों के अनुरूप, उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते 20 मई, 2022 की स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट / डिपाज़िटरी के पास पंजीकृत हैं, केवल इलेक्ट्रॉनि

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने सदस्यों को केवल एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म पर ही सुदूर ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने व का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। सदस्यों को सूचना के साथ रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु लॉगिन क्रेडेंशियल भेज दिए गए हैं। सूचना में सुदूर ई-वोटिंग माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। डाक मतदान सूचना की टिप्पणियों में दिए गए सुदूर ई-वोटिंग के निर्देश इसका अभिन्न अंग हैं।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य कृपया ध्यान दें कि इस डाक मतदान के लिए डाक मतदान प्रपत्र तथा प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे सहित डाक मतदान सूचना कागजी /भौतिक प्रति नहीं भेजी जा रही है। सुदूर ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'कट-ऑफ' तिथि शुक्रवार, 20 मई 2022 है। जिन सदस्यों का नाम कट-ऑफ तिथि

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज़ द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही सुदूर ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के अधिकारी होंगे। सुदूर ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 मई, 2022 को पूर्वाह 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी और शनिवार, 25 जून, 2022 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके एनएसडीएल द्वारा सुदूर ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर दिए जाने पर, बाद में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि इसे निम्नलिखित ढंग से पंजीकृत करें:

- (क) यदि शेयर्स कागजी / भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियों नं., शेयरधारक का नाम, किसी एक शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन की हुई प्रति, पैन (पैन कार्ड) स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति), मोबाइल नं. और ईमेल आईडी (फार्म आईएसआर–1 में उल्लेख किया जाए) आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति) के साथ प आईएसआर-1 investor@masserv.com या investor@nfl.co.in को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएं। कृपया आईएसआर-1 की मूल प्रति पैन ∕ आधार की प्रति के स आरटीए (अर्थात एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, दूसरा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण– । ।, नई दिल्ली – 110020) को भी भेजें ।
- (ख) जिन सदस्यों के पास शेयर्स डिमैटिरियलाइज्ड रूप में धारित हैं और उन्होंने अपने ई-मेल एड्रेस पंजीकृत / अद्यतन नहीं किए हैं, वे इसे उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) पास पंजीकृत / अद्यतन कराएं जिनके पास उनके डीमैट खाते अनुरक्षित हैं ।

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रकिया के माध्यम से डाक मतदान के उचित एवं पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स के स्वामी, श्री नरेश कुमार सिन्हा, कंप सचिव को जांचकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है। डाक मतदान की वैधता के संबंध में जांचकर्त्ता का निर्णय अंतिम होगा।

मतदान का परिणाम मंगलवार, 28 जून, 2022 को अथवा उससे पहले घोषित किया जाएगा। इन परिणामों को जांचकर्त्ता की रिपोर्ट सहित कंपनी की वेबसाइ www.nationalfertilizers.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई त बीएसई को भी साथ-साथ संप्रेषित किया जाएगा।

यदि कोई पूछताछ करनी हो तो, आप<u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चंस (एफएक्यू) और शेयरधारकों के वि ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा अमित विशाल को evoting@nsdl.co. पर अथवा हमारे आरटीए को investor@masserv.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। कृतेः नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटे

@NFL_Kisan f @nationalfertilizers in National Fertilizer Limited

कंपनी सरि

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 26.05.2022